



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ 1934 (श0)
(सं0 पटना 214) पटना, बुधवार, 23 मई 2012

सं0 07-सू० प्रा०-190/2011-529
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

19 अप्रैल 2012

विषय:—राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 आदेश सं० 1609, दिनांक 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित किये जाने के आलोक में सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-1285, दिनांक 08.11.2011 के तहत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों का कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु "NIELIT (National Institute of Electronic & Information Technology) Ex-DOEACC Society को प्राधिकृत किया गया है तथा उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने वाले कर्मियों से परीक्षा शुल्क एवं कोर्स फीस के रूप में रुपये 4,460 (चार हजार चार सौ साठ) रुपये + सर्विस टैक्स 460/- (चार सौ साठ) रु० (10.3% की दर से) + रु० 250 (दो सौ पचास) मात्र अल्पाहार हेतु कुल राशि 5,170 (पाँच हजार एक सौ सत्तर) रुपये मात्र प्रति कर्मी को जमा किये जाने का प्रावधान किया गया था। परन्तु दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से केन्द्र सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क 10.3% को 12.36% में परिवर्तित कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है :-

Head	Value (Rs.) As on 31-03-2012	Value (Rs.) As on 01-04-2012
Course Fee	4460/-	4460/-
Service Tax	460/- (@ 10.3%)	552/- (@ 12.36%)
Refreshment Charges	250/-	250/-
Total :-	5170/-	5262/-
Effective Change :-	Rs. 92/-	

वर्णित स्थिति में दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों के द्वारा परीक्षा शुल्क एवं कोर्स फीस के रूप में रुपये 4,460 (चार हजार चार सौ साठ) रुपये + सर्विस टैक्स 552 (पाँच सौ बावन) रु० (12.36% की दर से) + रु० 250 (दो सौ पचास) मात्र अल्पाहार हेतु कुल राशि 5,262 (पाँच हजार दो सौ बासठ) रुपये मात्र Demand Draft के रूप में **NIELIT REGIONAL OFFICE, PATNA, PAYABLE AT PATNA** में जमा करना होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दिनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 214-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>